



Moving Every Mile With A Smile

# संवाद

Welcome  
2025

## Maheshwari Logistics Ltd.

Coal | Logistics | Paper

October - December 2025  
ISSUE 25

दुखभाङ्ग न भवत्येवं नित्यं सन्निहितस्मृतिः।

Those who regularly reflect on time's passing will remain free from sorrow.



### स्पर्श

मस्ती - JOY

मस्ती जीवन का वह अनमोल पहलू है जो हर पल को खुशनुमा और यादगार बनाता है। यह किसी की उम्र, सामाजिक स्थिति, या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती; यह तो मन की अवस्था है। मस्ती का मतलब केवल हँसी-मज़ाक या मौज से नहीं, बल्कि जीवन को पूरे जोश और उत्साह के साथ जीने से है।

जिस व्यक्ति के दिल में मस्ती होती है, वह कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कान ढूँढ लेता है। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। मस्ती से भरपूर इंसान छोटे-छोटे पलों में खुशियाँ ढूँढता है और दूसरों के जीवन में भी रंग भरता है।

मस्ती का यह मतलब नहीं कि हम जिम्मेदारियों को भूल जाएँ। यह तो जीवन का संतुलन है, जहाँ हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन को खुश और हल्का रखते हैं। अगर मस्ती हमारे जीवन से गायब हो जाए, तो हमारा जीवन बेरंग और नीरस हो जाता है।

इसलिए, हमेशा अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखें, मस्ती को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि,

जिसकी मस्ती ज़िंदा है, उसकी हस्ती ज़िंदा है।

Mukta Maheshwari  
Editor - Samvad



### समन्वय

नमस्ते,

मैं

आप सभी से माहेश्वरी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की ओर से यह संदेश साझा करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ। हमारी सफलता का सबसे बड़ा आधार है टीमवर्क और मैन पावर का बेहतर प्रबंधन।

हम मानते हैं कि किसी भी संस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं। हमारी टीम के सभी सदस्यों की मेहनत, एकता और सहयोग ने हमें हर चुनौती को अवसर में बदलने और बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करने में मदद की है। जब सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हर लक्ष्य को पाना आसान हो जाता है।

पिछला साल हमें यह सिखाने वाला रहा कि एकजुटता और सही दिशा में मेहनत करने से हर मुश्किल का समाधान संभव है। हमने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है, जहाँ हर व्यक्ति न केवल अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके, बल्कि नई सोच और तरक्की के लिए प्रेरित भी हो।

आने वाले समय में भी हमारा ध्यान अपने लोगों को मजबूत बनाने और मिलकर काम करने की भावना को और आगे बढ़ाने पर रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारी टीम न केवल सफल हो, बल्कि अपनी सफलता से दूसरों को भी प्रेरणा दे।

आपके समर्थन और विश्वास के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके साथ और हमारी मजबूत टीम के सहयोग से, हम हर मंजिल को हासिल करेंगे।

अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, साथ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं

धन्यवाद!

Shubham Maheshwari  
Director, Maheshwari Logistics Limited.



### श्रद्धांजलि



रतनी देवी दारजी



सुमित्रा देवी वर्मा



हिमांशु मनियार



# IN HOUSE TALENT

*Congratulations!!!*



Dr. Muskan Maheshwari's Convocation for BDS



Nidhi Agrawal for qualifying Master of Computer Applications and getting job in Deloitte



Panth Mukesh Parmar got First prize in Garba conducted by Gyan Ganga School, Vapi



Prisha Pawar got Bronze Medal in Running Competition organized by The Radiant International School



Salim Ansari certified as 1st Champion in Ustadon ke Ustad Season 7 at Pune



Vidhi Maheshwari got 1st prize in 200mtr Girls Race organized by Delhi Public School, Vapi



Dr. Nishita Maheshwari on completing Masters in General Surgery



Garima Holani cleared CA Group 1



Jahnvi Jajoo received medal and certificate by India Book of Records for setting a record for hanging on to a pull-up bar for the longest duration of 33 minutes 45 seconds

हुक  
अपने भीतर देखो जरा  
झांको ज़रा  
तुमने कितनी खुटिया हैं टांगी  
जब जब तुम दर्द से कराह उठते हो  
देखो वहां तुमने किसकी कही बात को  
है टांगा  
तुमने ही तो जगह जगह अपने अंदर  
बाहर लगाई है खुटिया  
क्यू समझ नहीं आया अभी तक  
जब तुम जानते हो की यह सब तुम्हें  
बना रहे है कमज़ोर  
किसी से मांग लो माफी किसी को कर  
दो माफ  
जब उन लहरों को उसी सागर में  
मिलना है । अनुराधा जाजू



## गंडक रे भरोसे गाड़ी कोनी चाले

एक प्रसिद्ध राजस्थानी कहावत है, जो यह सिखाती है कि किसी का मूल्य उसकी वास्तविक उपयोगिता और योगदान से तय होता है, केवल उसकी उपस्थिति से नहीं।

इस कहावत के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक ऊंटगाड़ी धीरे-धीरे अपनी रफ्तार से चल रही थी। गाड़ी के नीचे एक कुत्ता भी उसके साथ-साथ चल रहा था। थोड़ी देर बाद कुत्ते को यह भ्रम हो गया कि गाड़ी उसके कारण चल रही है। यह सोचकर उसने रुकने का निर्णय लिया, मानो गाड़ी भी रुक जाएगी। लेकिन ऊंटगाड़ी बिना रुके अपने रास्ते पर बढ़ती रही। तब कुत्ते को अहसास हुआ कि गाड़ी को खींचने में उसका कोई योगदान नहीं है और उसका यह भ्रम निराधार था।

यह कहावत उन लोगों पर कटाक्ष करती है, जो बिना किसी योगदान के भी खुद को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यह हमें सिखाती है कि आत्ममूल्यांकन यथार्थवादी होना चाहिए और हमें अपनी क्षमताओं और योगदान का सच्चा आकलन करना चाहिए। केवल दिखावे से महत्व अर्जित नहीं किया जा सकता। इस कहावत का संदेश सरल और स्पष्ट - महत्वपूर्ण वही है जो सच में उपयोगी हो।



विरम सिंह चौहान, बाड़मेर

## आज मैंने अपने आप से पूछा

आज मैंने अपने आप से पूछा कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ?  
मुझे मेरा पूरा कमरा ही जवाब देने लगा  
खिड़की ने कहा - अपने देखने का दायरा बढ़ाओ  
शीशे ने कहा - अपने आप को देखो  
दीवार ने कहा - दूसरों का बोझ बांटो  
फर्श ने कहा - जमीन से जुड़ कर रहो  
छत ने कहा - ऊँचा सोचो  
पंखे ने कहा - दिमाग ठंडा रक्खो  
घड़ी ने कहा - समय की कद्र करो  
कैलेंडर ने कहा - वक्त के साथ चलो  
पर्स ने कहा - भविष्य के लिए बचाओ



पूनम धूत , वापी

आप अपने हुनर को इस पते पर भेज सकते हैं, या priyaupadhyaympl@gmail.com पर मेल कीजिए ।

Priyanka Dubey, MLL House, Shed No A2-3/2, Opp. UPL, 1st Phase, GIDC, VAPI - 396 195. Mobile No. 98243 02806

# ॐ के उच्चारण से लाभ

ॐ का उच्चारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए चमत्कारिक लाभ प्रदान करता है। ॐ तीन अक्षरों "अ", "उ" और "म्" से बना है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, विकास और ब्रह्मलीन होने का प्रतीक हैं। ॐ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की अनाहत ध्वनि है, जिसका कोई प्रारंभ या अंत नहीं है। इसके नियमित उच्चारण से व्यक्ति को कई शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं।



## उच्चारण विधि:

प्रातः पवित्र होकर पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठकर ॐ का उच्चारण करें। इसे ३, ५, ७, ११ या २१ बार समयानुसार किया जा सकता है। ॐ जोर से या धीरे-धीरे बोल सकते हैं, और माला के साथ भी इसका जाप किया जा सकता है।

## शारीरिक लाभ :

1. तनाव और घबराहट कम होती है।
2. शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है।
3. हृदय और रक्त प्रवाह को संतुलित करता है।
4. पाचन शक्ति को बढ़ाता है।
5. थकान और अनिद्रा से राहत दिलाता है।
6. फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है।
7. रीढ़ की हड्डी और थायरॉयड ग्रंथि को मजबूत करता है।

इस प्रकार, केवल ५ मिनट के ॐ उच्चारण से शारीरिक और मानसिक संतुलन प्राप्त किया जा सकता है, जो आरोग्य के लिए अत्यंत लाभकारी है।




प्रियंका दूबे, वापी

## How to Behave Professionally in an Organization

Professional behaviour is essential for success in any workplace.

- Start by being punctual; arriving on time demonstrates reliability and respect for others' time.
- Follow the company's dress code to align with organizational standards.
- Communicate respectfully by actively listening, being open to feedback, and offering assistance to colleagues.
- Honesty is critical—maintain integrity in your work and interactions.
- Cultivate a positive attitude, which contributes to a healthy and productive work environment.
- Take responsibility for your tasks, owning both successes and mistakes.
- Limit personal use of social media during work hours to remain focussed and professional.
- Lastly, be a team player by supporting your colleagues when needed, fostering a collaborative atmosphere.
- These practices not only enhance your professional image but also contribute to organizational success.



Priyanka Pawar, Surat

## खेल खेल में

### Word Search

# WINTER IS HERE

COAT IGLOO  
COLD SCARF  
FROST SNOW  
ICE WINTER



DIRECTIONS: Find and circle the vocabulary words colors in the grid. Look for them vertically and horizontally.

C	S	M	F	S	N	O	W
O	C	B	R	C	S	M	H
A	A	Q	O	O	B	V	K
T	R	E	S	L	F	E	I
W	F	O	T	D	Q	S	Z
L	W	K	Y	Q	I	C	E
V	Q	W	I	G	L	O	O
H	W	I	N	T	E	R	N

Last edition Riddles solved by

Vapi :  
Rajneesh Roy, Priyanka Dubey,  
Arnav Maheshwari, Navika Maheshwari

Surat : Priyanka Pawar

Last Edition Riddle's Answers

1. Keyboard/ Piano
2. Candle/ Pencil



रिडल्स के सही जवाब आपको 15th February तक भेजने है।

जिनके भी जवाब सही होंगे, उनमें से लकी ड्रॉ के द्वारा 5 नाम चुन कर संवाद के अगले अंक में उत्तर के साथ प्रकाशित किए जाएँगे।

# GLIMPSE OF EVENTS



Dusshera Pooja at Ambethi Factory, Vapi



Diwali Pooja at MLL House, Vapi



Navratri Pooja at MLL House, Vapi



Diwali Pooja at Mora, Hazira



NSH Mr. Challa (Mahindra National Service Head) visit at MLL Mahindra, Hazira and Chikhli

## Prize Distribution for best entries in Colouring Competition



Arjun Dubey



Vidhi Maheshwari



Aarav Maheshwari



Arnab Maheshwari



Kavisha Maheshwari



Vihan Maheshwari



Anwit Maheshwari



Navya Maheshwari



Navika Maheshwari



Prisha Pawar

Participants above 20 years – Aditya, Rajneesh, Priyanka